



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2007, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1929
No. 8] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2007, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा गुणता आश्वासन सेवा, नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा गुणता आश्वासन सेवा (संशोधन) नियम, 2007 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा गुणता आश्वासन सेवा नियम, 2000 की अनुसूची 1 में अपर महानिदेशक गुणता आश्वासन (उच्चतर प्रशासनिक अधिकारी) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थातः—
“ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी (निदेशक श्रेणी-1) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण—किसी अधिकारी द्वारा उक्त पात्रता शर्त पूरी करने के अभाव में ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने उस श्रेणी तथा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (जिसके अंतर्गत अकृत्यिक चयन श्रेणी में सेवा भी है) एक साथ मिलाकर कम से कम ग्यारह वर्ष तक नियमित सम्मिलित सेवा की है, विचार किया जाएगा। यह उपबंध इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।”

[फा. सं. 93103/डीजीक्यूए/प्रशा-6बी/डा. संख्या 1017/07/डी(क्यू.ए.)]

संगीता शर्मा, निदेशक (एस-1)

टिप्पण: मुख्य नियम, का.नि.आ. 287 दिनांक 15 नवंबर, 2000 के अंतर्गत, भारत के राजपत्र भाग-II खण्ड 4 में 9 दिसंबर, 2000 को प्रकाशित किए गए थे तथा उसके बाद का.नि.आ. 172 दिनांक 24 जुलाई, 2002 द्वारा संशोधित करके 17 अगस्त, 2002 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए, का.नि.आ. 212 दिनांक 17 सितंबर, 2002 द्वारा 12 अक्टूबर, 2002 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा का.नि.आ. 144 दिनांक 15 सितंबर, 2004 द्वारा 9 अक्टूबर, 2004 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2007

S.R.O. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Quality Assurance Service Rules, 2000, namely :—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Defence Quality Assurance Service (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Quality Assurance Service Rules, 2000, in Schedule 1, for the entries under Column (5) against Sl. No. 1 relating to the post of Additional Director General Quality Assurance (Higher Administrative Grade) the following shall be substituted, namely:—

“Officers of the Senior Administrative Grade (Director Grade-I) with three years regular service in the grade.

Note : In the absence of any officer fulfilling the above eligibility condition, officers in the Senior Administrative Grade with eleven years' combined regular service in the Senior Administrative Grade and the Junior Administrative Grade (including service in the Non-Functional Selection Grade) taken together shall be considered. This provision shall remain in force only for a further period of five years from the date of notification of these rules.”

[File No. 93103/DGQA/Adm-6-B/Dy No. 1017/07/D (QA)]

SUNGITA SHARMA, Director (S-I)

Note : The principal rules were published in the gazette of India, Part II, Section 4, on 9th December, 2000, vide S.R.O. 287, dated 15th November, 2000 and were subsequently amended by S.R.O. 172 dated 24th July, 2002, published in the Gazette on 17th August, 2002, S. R. O. 212 dated 17th September, 2002, published in the gazette on 12th October, 2002 and S.R.O. 144 dated 5th September, 2004 published in the Gazette on 9th October, 2004.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ख' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	---------	------------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	702* (2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	7450-225-11500 रु.	चयन	लाभ नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई कोई हो
--	---	-----------------------------------

(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लाभ नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में डिग्री या समतुल्य।

(ii) उत्पादन या विकास या क्वालिटी आश्वासन से संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव

वांछनीय

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से जर्मन या फ्रेंच या रशियन या जापानी या चीनी भाषा में दक्षता या प्रमाणपत्र।

टिप्पण 1—उन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, जिनमें उपरोक्त (ii) में आवश्यक अनुभव अपेक्षित है, को प्रायः भर्ती के समय पर दर्शित किया जाएगा।

टिप्पण 2—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(8)

टिप्पण 3— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेदन किया जायेगा

(11)

60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और
40 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति : 6500-10500 रु. के वर्तमान में ऐसा सहायक फोरमैन जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और सीधी भर्ती वालों के पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

- | | |
|--|----------|
| 1. अपर माहनिदेशक क्वालिटी आश्वासन | —अध्यक्ष |
| 2. संबद्ध तकनीकी निदेशक | —सदस्य |
| 3. प्रशासनिक निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक | —सदस्य |
| 4. संबद्ध विधा से कोई संयुक्त निदेशक | —सदस्य |
| 5. संबद्ध विधा से भिन्न किसी अन्य विधा से कोई संयुक्त निदेशक | —सदस्य |
| 6. उप निदेशक (प्रशा.-10) | —सदस्य |

(14)

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फाइल सं. ए-86320/आर. आर./तकनीकी/जे.टी.ओ./डी.जी.क्यू.ए./प्रशा.-10/722/डी (क्यू.ए.)/2007]

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

DIRECTORATE GENERAL OF QUALITY ASSURANCE

New Delhi, the 17th April, 2007

S.R.O. 24.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance (Group 'B' Technical Posts) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Junior Technical Officer, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:—

1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance Junior Technical Officer Group 'B' post Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Technical Officer	*702 (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 7450-225-11500	Selection	Not Applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshawweep).	Essential : (i) Master's Degree in Science subjects or Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a Recognised University or Equivalent. (i) Two years practical experience in production or development or quality assurance in the relevant field. Desirable : Certificate of proficiency in German or French or Russian or Japanese or Chinese language from a recognised University or Institute. Note 1: The specific area in which the experience in essential (ii) above is required shall be indicated at the time of each recruitment.	Not Applicable	Two years for direct recruits		

(8)

Note 2 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 3: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

(12)

Sixty percent by promotion and
Forty percent by direct recruitment.

Promotion:

Assistant Foreman in the pay Scale of Rs. 6500-10500 with two years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of Direct Recruits) consisting of :—

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

1. Additional Director General, Quality Assurance — Chairman
2. Technical Director concerned — Member
3. Any Joint Director from Administration Directorate — Member
4. Joint Director from the Discipline concerned — Member

(13)

5. Joint Director from any other discipline other than the concerned discipline —Member
 6. Deputy Director (Adm-10) —Member

[F. No. A/86320/RR/Tech/JTO/DGQA/Adm-10/722/D(QA)/2007]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 25.—केन्द्रीय सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उड़ीसा राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन परियोजना साइट पी 2 ग्राम-कियारबैंक, तहसील-महाकालपारा, जिला-केन्द्रपारा, की भूमि के आस-पास है, के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि का रेखाचित्र, जिला कलेक्टर का कार्यालय, केन्द्रपारा, उड़ीसा में देखा जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परियोजना साइट पी 2 ग्राम-कियारबैंक, तहसील-महाकालपारा, जिला-केन्द्रपारा, की बाहरी मुंडेर की चोटी से 100 मीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्र की समस्त भूमि।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/केबीके]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 4th April, 2007

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed being land lying in the vicinity of Defence Research and Development Organisation Project Site P2 Village-Kiyarbank, Teshil-Mahakalpara, District-Kendrapara, in the State of Orissa, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the District Collector, Kendrapara, Orissa.

SCHEDULE

All land comprised in the area lying within the distance 100 meters from the crest of the outer parapet of the Defence Research & Development Organisation Project, Site P2, Village-Kiyarbank, Teshil-Mahakalpara, District-Kendrapara, in the State of Orissa.

[F. No. DCWE/07/34079/WDA/KBK]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 26.—केन्द्रीय सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर, जो उत्तर प्रदेश राज्य में रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास स्थापन, कानपुर-208013 के पास की भूमि है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों को अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि का रेखांकन का कानपुर, उत्तर प्रदेश में जिला कलेक्टर का कार्यालय, में निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास स्थापन, कानपुर-208013 की बाह्य दीवार के शिखर से लगभग 50 गज की दूरी में आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट संपूर्ण भूमि।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/डीएमएसआरडीई]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2007

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government is pleased to declare that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed being land lying in the vicinity of Defence Material and Store Research and Development Establishment (DMSRDE), Kanpur—208013, in the State of Uttar Pradesh, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the District Collector, Kanpur, Uttar Pradesh.

SCHEDULE

All land comprised in the area lying within the distance of approximately fifty yards from the crest of the outer parapet of the Defence Material and Store Research and Development Establishment (DMSRDE), Kanpur—208013, in the State of Uttar Pradesh.

[F.No. DCWE/07/34079/WDA/DMSRDE]

S. K. DEB, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 27.—केन्द्रीय सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि, जो उड़ीसा राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परियोजना साइट पी 1 ग्राम-गाडाबानगर, तहसील-निमापारा, जिला-पुरी की भूमि के आस-पास है, के उपयोग और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माण और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि का रेखाचित्र, जिला कलेक्टर का कार्यालय, पुरी, उड़ीसा में देखा जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परियोजना साइट पी 1 ग्राम-गाडाबानगर, तहसील-निमापारा, जिला-पुरी, की बाहरी मुर्दर की चौटी से 200 मीटर की दूरी के भीतर आने वाले क्षेत्रों की समस्त भूमि।

[फा. सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/जीबीजी]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 11th April, 2007

S.R.O. 27.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act, upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed being land lying in the vicinity of Defence Research and Development Organisation, Project Site P1, Village-Gadabangar, Teshil-Nimapara, District-Puri, in the State of Orissa, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the District Collector, Puri, Orissa.

SCHEDULE

All land comprised in the area lying within the distance of 200 meters from the crest of the outer parapet of the Defence Research & Development Organisation Project Site P1, Village-Gadabangar, Teshil-Nimapara, District-Puri, in the State of Orissa.

[F.No. DCWE/07/34079/WDA/GBG]

S. K. DEB, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

का.नि.आ. 28.—दिनांक 29-4-2006 की राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित दिनांक 20-4-2006 की अधिसूचना सा.का.नि. 14 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

कॉलम 13, बिन्दु संख्या 2 में उल्लिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को हटा दिया गया समझा जाए।

[फा. सं. 41(11)/02/रक्षा (निर्माणी-II)]

चांद कुमार, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th April, 2007

S.R.O. 28.—The following amendment is made to the Notification S.R.O. 14 dated 20-4-2006 published in the Gazette Notification dated 29-4-2006 :—

In column 13, point No. 2 Scheduled Caste/Scheduled Tribe mentioned therein may be treated as deleted.

[File No. 41 (11)/02/D(FY-II)]

CHAND KUMAR, Under Secy.